

भारतीय मसाला फसल अनुसंधान संस्थान INDIAN INSTITUTE OF SPICES RESEARCH
(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् Indian Council of Agricultural Research)
मेरिकुन्नु पी ओ, Marikunnu PO, कलिकट Calicut - 673012.
आकस्मिक छुट्टी / प्रतिपूरक छुट्टी/ प्रतिबन्धित छुट्टी/ मुख्यालय की अनुमति के लिए आवेदन पत्र
Application for CL/ CH/ RH/ Headquarters Permission

1. नाम Name :
2. पदनाम Designation :
3. आवेदित छुट्टी की तारीख एवं अवधि
Date & Period of leave applied for :
4. पहले ली गयी आकस्मिक छुट्टी की संख्या
Number of CL availed previously :
5. रविवार/ छुट्टी लेना चाहते हैं
Sundays/ holidays proposed to avail :
6. अनुपस्थित दिनों की कुल संख्या
Total number of day's absence :
7. प्रस्तावित अवधि के समय इधर है या मुख्यालय से बाहर
whether proposed to avail at or outside
headquarters? :
8. उद्देश्य Purpose :
9. छुट्टी काल का पता Leave address :

स्थान Place :
दिनांक Date :

आवेदक का हस्ताक्षर
Signature of applicant

भारतीय मसाला फसल अनुसंधान संस्थान INDIAN INSTITUTE OF SPICES RESEARCH
(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् Indian Council of Agricultural Research)
मेरिकुन्नु पी ओ, Marikunnu PO, कलिकट Calicut - 673012.
आकस्मिक छुट्टी / प्रतिपूरक छुट्टी/ प्रतिबन्धित छुट्टी/ मुख्यालय की अनुमति के लिए आवेदन पत्र
Application for CL/ CH/ RH/ Headquarters Permission

1. नाम Name :
2. पदनाम Designation :
3. आवेदित छुट्टी की तारीख एवं अवधि
Date & Period of leave applied for :
4. पहले ली गयी आकस्मिक छुट्टी की संख्या
Number of CL availed previously :
5. रविवार/ छुट्टी लेना चाहते हैं
Sundays/ holidays proposed to avail :
6. अनुपस्थित दिनों की कुल संख्या
Total number of day's absence :
7. प्रस्तावित अवधि के समय इधर है या मुख्यालय से बाहर
whether proposed to avail at or
outside headquarters? :
8. उद्देश्य Purpose :
9. छुट्टी काल का पता Leave address :

स्थान Place :
दिनांक Date :

आवेदक का हस्ताक्षर
Signature of applicant

आवेदक के हिसाब में उपलब्ध आकस्मिक छुट्टी/
प्रतिबंधित छुट्टी / प्रतिपूरक छुट्टी की संख्या
No. of days of CL/ RH/ CH at credit of the
applicant.

:

सिफारिश करनेवाले अधिकारी की टिप्पणी
Remarks of the recommending officer

:

मंजूर हुई/ नहीं हुई
SANCTIONED / NOT SANCTIONED

मंजूरी दाता प्राधिकारी का हस्ताक्षर
Signature of the sanctioning authority

:

आवेदक के हिसाब में उपलब्ध आकस्मिक छुट्टी/
प्रतिबंधित छुट्टी / प्रतिपूरक छुट्टी की संख्या
No. of days of CL/ RH/ CH at credit of the
applicant.

:

सिफारिश करनेवाले अधिकारी की टिप्पणी
Remarks of the recommending officer

:

मंजूर हुई/ नहीं हुई
SANCTIONED / NOT SANCTIONED

मंजूरी दाता प्राधिकारी का हस्ताक्षर
Signature of the sanctioning authority

: